

शौचालय के स्वनिर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की विधि

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रारंभ होने (वर्ष 2014) के उपरांत शौचालय निर्माण हेतु यदि नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुआ तो आवेदन का पूर्ण विवरण के साथ आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या दर्ज कर प्रखंड कार्यालय में जमा करें या लाभार्थी 'मोबाइल ऐप' या लैपटॉप/कंप्यूटर के माध्यम से 'ऑनलाइन' आवेदन भी कर सकते हैं।

1) मोबाइल ऐप से आवेदन की प्रक्रिया:

- 1.1) सर्वप्रथम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेबसाइट <http://lsba.bih.nic.in> को खोलें।
- 1.2) इस वेबपेज के मध्य भाग में Important Links का बॉक्स दिखेगा, इसमें चार लिंक दिए गए हैं। चार लिंक में से क्रम संख्या- एक पर दिए गए लिंक- **'निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मोबाइल ऐप'** पर क्लिक करें। मोबाइल ऐप डाउनलोड होने में 5-10 सेकंड का समय लगेगा, यह आपके मोबाइल के होम पेज पर 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लोगो' के रूप में Save हो जाएगा। अब इस ऐप को Open कर आवेदन किया जा सकता है।
- 1.3) अब लाभार्थी अपना विवरण भरें -
 - a) बेसलाइन क्रम संख्या भरना है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, यह भरना अनिवार्य नहीं है।
 - b) लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, श्रेणी, पता, मोबाइल नंबर, शौचालय निर्माण की तिथि, जिला, प्रखंड, पंचायत, ग्राम, वार्ड, टोला का नाम, आधार संख्या एवं एपीएल/बीपीएल संख्या भरें।
 - c) बेसलाइन संख्या, शौचालय निर्माण की तिथि एवं एपीएल/बीपीएल कॉलम भरना अनिवार्य नहीं है। इस कॉलम के बारे में जानकारी नहीं होने पर इसे खाली छोड़ा जा सकता है।
- 1.4) सबसे अंत में 'शौचालय के साथ लाभार्थी फोटो' का कॉलम आता है, इसमें कैमरा के चित्र पर क्लिक करें। इसके बाद कैमरा खुलेगा। शौचालय स्थल के साथ लाभार्थी का फोटो लें। इसके उपरांत 'पंजीकृत करें' पर क्लिक करें।
- 1.5) इसके उपरांत 'आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है' का मैसेज आएगा। एक या दो दिन के उपरांत इसी मोबाइल ऐप पर अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 'आवेदन की स्थिति' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर डालें एवं सर्च बटन पर क्लिक करें।
- 1.6) आवेदन के समय इंटरनेट ऑन रखें।

2. लैपटॉप / कंप्यूटर से वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :

लाभार्थी द्वारा किसी भी इंटरनेट युक्त कंप्यूटर/ लैपटॉप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

- 2.1) सर्वप्रथम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेबसाइट <http://lsba.bih.nic.in> को खोलें।
- 2.2) वेबपेज के बायें भाग में Important Links का बॉक्स दिखेगा, इसमें चार लिंक दिए गए हैं। इन चार लिंक में से क्रम संख्या- तीन पर दिए गए लिंक- **'निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु ऑनलाइन लिंक'** पर क्लिक करें।
- 2.3) अब लाभार्थी अपना विवरण भरें - (उपरोक्त क्रमांक 1.3 के अनुसार भरें)
- 2.4) सबसे अंत में 'शौचालय के साथ लाभार्थी फोटो' का कॉलम आता है। इस हेतु choose file- पर क्लिक करें। इसके क्लिक करने के बाद 'शौचालय स्थल के साथ लाभार्थी फोटो' (फोटो की साफ्ट कॉपी या फोटो की स्कैन कॉपी) अपलोड करें। अंत में Save पर क्लिक कर दें।
- 2.5) इसके उपरांत 'आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है' का मैसेज आएगा।
- 2.6) आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन भरने के एक या दो दिन के उपरांत इसी तीसरे लिंक के नीचे "आवेदन की स्थिति" पर जाएं। इसके बाद आधार नंबर डालें एवं सर्च बटन पर क्लिक करें।
- 2.7) आवेदन के समय इंटरनेट ऑन रखें।